

शुद्धिपत्र- संख्या -1 / CORRIGENDUM- NO. 1

निविदा संदर्भ सं: इकोईस -PUR-44/2024 दिनांक। 01.09.2025

निविदा पहचान संख्या: GEM/2025/B/6633302 दिनांक 01.09.2025

Tender Ref No: INCOIS-PUR-44/2024 dt. 01.09.2025;

Tender ID No: GEM/2025/B/6633302 dt.01.09.2025

इकोईस ने " . मौजूदा IBMS सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उन्नयन/वृद्धि उसकी नवीनतम संस्करण में और ITCO भवन का एकल डैशबोर्ड के तहत अंतर्निहित करना। ii. INCOIS डेटा सेंटर के मौजूदा अग्निशामक प्रणाली का उन्नयन - खरीद-बैक के तहत। iii. INCOIS, हैदराबाद में विभिन्न स्थानों और अग्नि अलार्म प्रतिक्रिया संकेतकों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए मुख्य रिसेप्शन क्षेत्र में एक पुनरावृत्ति पैनल की स्थापना, साथ ही एक वर्ष की वारंटी।।

- i. INCOIS has published the tender for Up-Gradation/Augmentation of existing IBMS software platform to its latest version and Integration of ITCO building under Single Dashboard.
- ii. Up-gradation of existing Fire Suppression System of INCOIS Data Center Under Buy – Back
- iii. Installation of One Repeater Panel at the main reception area for centralized monitoring of various locations and fire alarm response indicators along with one year warranty at INCOIS, Hyderabad .”.

The Corrigendum No. 1 is issued as appended below:

A. Amended/Additional details:

Sr. No	RFP Reference	Page No	Clause as per Tender Document	As per Corrigendum No 01
1	Section 04, Point B – Functional Requirements	4	<p>INCOIS has HFC227ea based fire suppression system for Data Centre and the same has to be upgraded with FK5112 based system without disturbing the existing fire piping system which is designed with 42 bar.</p> <ul style="list-style-type: none">• The scope includes decommissioning and dismantling of existing FSS cylinders.• The system should work successfully after replacement of gas cylinders.• The up gradation of the fire suppression system shall be of the existing make only, to ensure compatibility with the existing piping and continued usability.	<p>INCOIS has HFC227ea based fire suppression system for Data Centre and the same has to be upgraded with FK5112 based system without disturbing the existing fire piping system which is designed with 42 bar.</p> <ul style="list-style-type: none">• The scope includes decommissioning and dismantling of existing FSS cylinders.• The system should work successfully after replacement of gas cylinders. <p>The up gradation of the fire suppression system shall be of any reputed make ensuring compatibility with the existing piping and continued usability.</p>

2	Section 9, Point 5 - General Terms & Conditions	8	Completion period: Within 8 weeks from the date of acceptance of the purchase order.	Completion period: Within 10 weeks from the date of acceptance of the purchase order
---	---	---	--	--

ध्यान दें:- ऊपर बताए गए बिंदुओं को छोड़कर, मूल निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए गए अन्य सभी विनिर्देश, नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी

NB:- Except for the points indicated above, all other Specifications, Terms and conditions as indicated in the original tender document, Remains unaltered unless further amended.

हैदराबाद /Hyderabad
23.09.2025



(देवेन्द्रकुमार/V.Subrahmanyam)
केंद्रअधिकारी/NodalOfficer,

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद , Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad

